


अविलंब मातृत्व चेतावनी के संकेत



ऐसा सरदर्द जो दूर न हो
अथवा समय के साथ
बदतर होता जाए



चक्कर आना या
बेहोशी आना



खुद को अथवा अपने
बच्चे को चोट पहुँचाने
संबंधी विचार आना




आपकी नज़र में
परिवर्तन होना



बुखार होना



साँस लेने में कठिनाई होना



सीने में दर्द अथवा
दिल की धड़कन
तेज़ होना



पेट में ऐसा तेज़ दर्द
जो दूर न हो




गंभीर मतली तथा उल्टी
(मॉर्निंग सिक्नेस जैसी
न हो) होना



बच्चे की हरकत रुक जाना
अथवा कम होना



गर्भावस्था के दौरान योनि
से रक्तस्राव होना अथवा
द्रव का रिसाव होना



गर्भावस्था के बाद योनि
से रक्तस्राव या तरल का
रिसाव होना



आपकी टांग में
सूजन, लालिमा
अथवा दर्द



आपके हाथों अथवा
चेहरे पर अत्यंत सूजन



ज़बरदस्त थकान

यदि गर्भावस्था के दौरान अथवा उसके बाद आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हों, तो अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से संपर्क करें तथा तुरंत सहायता लें।

यदि आप अपने प्रदाता तक नहीं पहुँच सकतीं, तो आपातकालीन कक्ष में जाएं। यह जरूर बताएं कि आप गर्भवती हैं अथवा पिछले साल के दरमियान गर्भवती रही हैं।

और जानें: <https://saferbirth.org/aim-resources/aim-cornerstones/urgent-maternal-warning-signs/>



ज्यादा जानकारी के लिए एक फोटो लें

© 2022 American College of Obstetricians and Gynecologists. इस प्रलेख की प्रतियां बनाने तथा वितरण करने के लिए, इसकी संपूर्णता में तथा बिना किसी संशोधन के, केवल ऐसी गैर-वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाती है जो शैक्षिक, गुणवत्ता सुधार तथा रोगी सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए हों। दूसरे सभी इस्तेमालों के लिए ACOG की लिखित अनुमति जरूरी है।